

**225 एफ, एजेसी बोस रोड, कोलकाता -700020**

**विद्युत उत्पादकों के लिए विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी योजना 2015 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया**

**एमएसटीसी लिमिटेड के साथ पंजीकरण कैसे करें:**

- क. हमारे वेबसाइट [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर पर लॉग ऑन करें।
- ख. ई-नीलामी' > 'कोयले के लिए ई-नीलामी' लिंक पर क्लिक करें और फिर दिए गए लिंक पर: 'रजिस्टर' करें।
- ग. स्क्रीन पर e-Auction से संबंधित GENERAL TERMS & CONDITIONS आएगा। पेज के निचले हिस्से में Scroll को ले जाएं, जहां दो विकल्पो होंगे :  
क) **Register as Buyer** और ख) **Register as Seller**  
Register as Buyer को सिलेक्ट कर क्लिक करें।
- घ. स्क्रीन पर BUYER SPECIFIC TERMS & CONDITIONS उपलब्ध होगा। पेज के निचले हिस्से में फिर से दो विकल्प होंगे : Agree और Disagree । Agree बटन को सिलेक्ट कर क्लिक करें।
- ङ. स्क्रीन पर Buyer Registration Form उपलब्ध होगा। मांगी गई सूचनाओं को भरें। आपको Buyer Type field के Coal/Coal Products को सिलेक्ट करना है।
- च. सभी (\*) से चिह्नित fields अति महत्वपूर्ण हैं, उन्हें अवश्य भरें।
- छ. अपना User ID और Password बनाएं और उसको नोट करके रखें।
- ज. फार्म को भरने के बाद Submit बटन को क्लिक करें।
- झ. अगला पेज आपसे संबंधित नहीं है, कृपया कुछ न भरें और Preview बटन को क्लिक करें। आपके द्वारा भरी गई सारी सूचनाएं आपके verification हेतु उपलब्ध होंगे। यदि सारी सूचनाएं सही हैं तो submit बटन को क्लिक करें। सफलतापूर्वक पंजीकरण होने पर सिस्टम आपको एक ई-मेल भेजेगी, जिसके साथ 000000000000 0000 एवं निम्नलिखित संबंधित कागजात जमा करना है :-

1. कोयला खरीद हेतु फर्स्ट क्लास/एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेड/ नोटरी सर्टीफाईन्ग के समक्ष कम से कम 10 (दस) रुपये मूल्य के स्टैंप पेपर पर एक घोषणा केवल खुद की खपत और विद्युत उत्पादन के लिए होगी और इसे पुनः बेचा, स्थानांतरित या निर्यात नहीं किया जाएगा। विद्युत उत्पादक भी अनुसूची- I के रूप में संलग्न प्रारूप के अनुसार संयंत्र के नाम, इकाइयों की संख्या, क्षमता जैसे अन्य विवरण के साथ, हलफनामा के तहत कमीशन की स्थिति प्रस्तुत करेंगे। बोलीदाताओं को भी एक ही शपथपत्र के तहत घोषित करना होगा कि यदि किसी भी बाद के स्तर में, यह पाया गया कि प्रस्तुत दस्तावेज में झूठे, भ्रामक या कोई गलत व्याख्या की गई थी, तो डिफॉल्टिंग बोलीदाता को अगले 1 साल के लिए सीआईएल द्वारा कोयले की नीलामी में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। (एफेडेवित का प्रारूप)
2. कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) द्वारा जारी किए गए निगमन का प्रमाण पत्र
3. नवीनतम आयकर रिटर्न
4. कंपनी का पैन कार्ड
5. कंपनी के मान्य बिक्री कर / वैट पंजीकरण प्रमाण पत्र
6. मान्य उत्पाद शुल्क पंजीकरण प्रमाणपत्र / फैक्टरी लाइसेंस (यदि कोई हो)

7. संचालन करने की सहमति के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध एनओसी / प्रमाण पत्र
8. बोर्ड रिजॉल्यूशन द्वारा बिजली संयंत्र के एक प्रतिनिधि को प्राधिकृत किया गया, जिसे एक अधिकृत अधिकारी के एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर और पैन कार्ड की प्रति के साथ कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
9. बोली दाता के पता तथा बैंक एकाउंट नंबर एवं उसकी स्थिति का बैंक द्वारा प्रमाणित मूल प्रमाण-पत्र।(बैंक प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रारूप में)
10. एमएसटीसी लिमिटेड(MSTC LTD) के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के जरिए पंजीकरण शुल्क दें।

### **पंजीकरण शुल्क :**

- i. हमारे ऑनलाइन ऑक्शन में अंशग्रहण करने के लिए, आपसे अनुरोध है कि गैर-वापसी पंजीकरण शुल्क **₹.2000/- (दो हजार रुपए मात्र ) + प्रयोज्य सेवाकर (GST) @18%** जमा करें। **आपका लॉगइन एक्टिवेट किया जाएगा, जो 23.08.2017 तक वैध रहेगा।**
- ii. विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी के लिए प्रोसेसिंग फीस **₹.2000/- (दो हजार रुपए मात्र ) + प्रयोज्य सेवाकर (GST) @18%** है। इसकी वैधता पंजीकृत खाते की वैधता के समान ही होगी।

उपरोक्त दस्तावेज और पंजीकरण शुल्क केवल प्रधान कार्यालय (कोलकाता) में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जमा किए जाने वाले दस्तावेजों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए या पब्लिक नोटरी द्वारा नोटरीकृत होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, सत्यापन के लिए फोटोकॉपी के साथ मूल दस्तावेज का प्रस्तुत किया जा सकता है (सत्यापन के बाद मूल दस्तावेज लौटा दिए जाएंगे)। दस्तावेज जमा करने पर आपके खाते को सक्रिय कर दिया जाएगा और आपको एक 'फोटो पहचान पत्र' जारी किया जाएगा।

**नोट 1:** बोलीकर्ता जो पहले से ही कोयले की ई-नीलामी के लिए एमएसटीसी के साथ पंजीकरण कर चुके हैं, उन्हें फिर से ऑनलाइन पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल उपरोक्त दस्तावेज और विशेष ई-नीलामी के लिए प्रोसेसिंग फी जमा करने की आवश्यकता है।

**नोट 2:** कोयले की नीलामी में भाग लेने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य है। इसीलिए पंजीकृत कोयला खरीदार को प्रमाणित अधिकारियों से डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। एक डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग से सभी पंजीकरण के लिए एक समान पैन प्रदान कर कई पंजीकरण किया जा सकता है।

**नोट 3:** कृपया अपने खरीदार संदर्भ संख्या का अपने एप्लिकेशन में उल्लेख करें (जो एमएसटीसी के साथ ऑनलाइन पंजीकरण के बाद उत्पन्न होगा) या उपरोक्त दस्तावेजों के साथ कन्फर्मेटरी ईमेल की प्रति संलग्न कर दें।

*Please note that in the event of any contradiction between Hindi and English version, the English version will prevail over the Hindi version.*

\*\*\*\*\*